



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 1977/ज्यैष्ठ 4, 1899

No. 171]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 1977/JYAISTHA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 25th May 1977

G.S.R. 254(E).—In exercise of the powers conferred by Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback (Second Amendment) Rules, 1977.

2. In rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971,—

(i) in sub-rule (1), in the second proviso, in clause (iii), for the words "if the said goods", the words, brackets, figure and letter "save as otherwise provided in sub-rule (1A), if the said goods" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

(1A) Nothing contained in clause (iii) of the second proviso to sub-rule (1) shall apply to tea bags and packing materials used in relation to such tea bags.

Explanation.—In this sub-rule, “tea bag” means a pouch or a folded bag made of porous filter paper or nylon mesh containing not more than 5 grams net of tea per bag for direct infusion along with the said porous materials.’

[No 2/F No. 602/14/77-DBK]

C D RANGACHARI, Dy Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 25 मई, 1977

सा०का०नि० 254 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 में और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 इन नियमों का नाम सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी (द्वितीय सशोधन) नियम, 1977 है ।

2 सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 के नियम 3 में,—

(i) उप-नियम (1) में, द्वितीय परन्तुक में, खंड (ii) में “यदि उक्त माल” शब्दों के स्थान पर “उप-नियम (1क) में अन्यथा उपबोधित के सिवाय, यदि उक्त माल” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जायेंगे,

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“(1क) उप-नियम (1) के द्वितीय परन्तुक के खंड (iii) की कोई बात चाय की थैलियों और ऐसी थैलियों के सम्बन्ध में उपयोग में लाई गई बैंकिंग सामग्री पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-नियम में, “चाय की थैलियों” से अभिप्रेत है ऐसी थैली या तहड़ा थैली, जो ऐसे रधयुक्त फिल्टर पेपर या नायलॉन मेश की बनी हो जिसमें उक्त रधयुक्त उपादान सहित सीधे पथूजन के लिए प्रति थैली अधिक से अधिक 5 ग्राम शुद्ध चाय हो ।’

‘स० 2 फा०स० 602/14 77-डी०बी०के०]’

सी० डी० रंगाचारी, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977